

प्रेस विज्ञप्ति

वेनेजुएला दूतावास और जामिया द्वारा ड्रामेटाइज़्ड प्ले रीडिंग का आयोजन

स्पेनिश और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने भारत में वेनेजुएला दूतावास के सहयोग से विश्वविद्यालय के सीआईटी सम्मेलन हॉल में 22 सितंबर, 2022 को स्पेनिश भाषा में ड्रामेटाइज़्ड प्ले रीडिंग का आयोजन किया। केंद्र के स्पेनिश और लैटिन अमेरिकी अध्ययन में बीए (ऑनर्स) और पीएचडी के छात्रों ने प्रसिद्ध वेनेजुएला के नाटककार सीजर रेंगिफो (1915-1980) के नाटक अपाकुआना और कुआरिकुरियन का परफोर्म किया।

एक नाटकीय कविता के रूप में लिखा गया यह नाटक 1569 में कैराकस की घाटी में स्पेनिश विजय के खिलाफ मारीच जनजाति के स्वदेशी प्रतिरोध पर आधारित है।

मूसलाधार बारिश के बावजूद, हॉल भरा हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और एमिटी विश्वविद्यालय के स्पेनिश संकाय और छात्र भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे थे।

मुख्य अतिथि, दूतावास महामहिम कोरोमोटो गोडॉय काल्डेरन, भारत में वेनेजुएला के राजदूत ने छात्रों को वेनेजुएला के सबसे प्रसिद्ध लेखकों और कलाकारों में से एक के महत्वपूर्ण काम को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने एक लैटिन अमेरिकी गीत की प्रसिद्ध पंक्तियों का हवाला देते हुए अपना भाषण समाप्त किया जो कहते हैं:

आई लव द स्टूडेंट्स
बिकॉज़ दे आर यीस्ट
फॉर द ब्रेड विच कम्ज़ फ्रॉम द ओवेन
विद ऑल इट्स फ्लेवर...

माननीय राजदूत ने सभी प्रतिभागियों, अभिनेताओं और बैकस्टेज प्रोडक्शन प्रभारी और वोलेंटियर्स को स्पेनिश पुस्तकों का एक सेट उपहार में दिया।

विशेष अतिथि, जेएनयू के स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र की अध्यक्ष प्रो. इंद्राणी मुखर्जी, ने अपने संबोधन में विदेशी भाषा सीखने में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया और केंद्र द्वारा की गई पहल की सराहना की।

केंद्र की मानद निदेशक प्रो. सोन्या सुरभि गुप्ता ने प्ले रीडिंग का निर्देशन करने के लिए श्री अल्फ्रेडो काल्डेरा को धन्यवाद दिया और छात्रों द्वारा किए गए टीम प्रयास की प्रशंशा की। डॉ. नूरिन खान ने जामिया प्रशासन और विशेष रूप से कुलपति प्रो. नजमा अख्तर को कार्यक्रम के लिए उनके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया